



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक - 30.08.2022

दिनांक-29.08.2022 को थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गांजा तस्करी के अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से 950 ग्राम गांजा बरामद किया

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पर्यवेक्षण व श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक थाना आदमपुर श्री अजीत कुमार वर्मा के नेतृत्व में दिनांक 29.08.2022 को उ0नि0 शशि प्रताप सिंह चौकी प्रभारी हनुमानफाटक, उ0नि0 संतोष कुमार यादव, मय हमराह का0 रामजनम व फैंटम 06 के कर्मचारीगण का0 अतुल वर्मा व का0 सूरज गुप्ता द्वारा मुखबिरी सूचना के आधार पर जलालीपुरा निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास से 01 नफर अभियुक्त शहनवाज अहमद उर्फ शनी पुत्र आलमगीर निवासी K46/235 हरतीरथ थाना कोतवाली जनपद वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष को समय 20.50 बजे गिरफ्तार कर उसके पास से 950 ग्राम गांजा बरामद किया गया जो अभियुक्त बेचने की फिराक में था। उपरोक्त घटना में फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी अभियुक्त के आधार पर थाना आदमपुर पर मु0अ0सं0 103/2022 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया है। थाना आदमपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान – दिनांक 29.08.2022 समय 20.50 बजे गिरफ्तारी का स्थान जलालीपुरा निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास थाना आदमपुर वाराणसी।

नाम व पता अभियुक्तगण - शहनवाज अहमद उर्फ शनी पुत्र आलमगीर निवासी K46/235 हरतीरथ थाना कोतवाली जनपद वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी – गांजा 950 ग्राम

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री शशि प्रताप सिंह चौकी प्रभारी हनुमानफाटक थाना आदमपुर वाराणसी।
2. उ0नि0 संतोष कुमार यादव थाना आदमपुर वाराणसी।
3. का0 रामजनम थाना आदमपुर वाराणसी।
4. का0 अतुल कुमार वर्मा थाना आदमपुर वाराणसी।
5. का0 सूरज गुप्ता थाना आदमपुर वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त,
जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी।